



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 833]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2018/कार्तिक 29, 1940

No. 833]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2018/KARTIKA 29, 1940

संस्कृति मंत्रालय

(राष्ट्रीय अभिलेखागार)

अधिसूचना

नई दिल्ली 19, नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1134(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संस्कृति विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली (अभिलेख उप निदेशक) समूह 'क' भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभिलेख उप निदेशक के पदों पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार (अभिलेख उप निदेशक), समूह 'क' भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में 8 फरवरी, 2002 से लागू माने जाएंगे।

2. संस्कृति विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली (अभिलेख उप निदेशक) समूह 'क' भर्ती नियम, 2000 की क्रम संख्या 5 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

चयन

व्याख्यात्मक ज्ञापन: संशोधन में पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हित, न्यायिक रूप से प्रभावित नहीं होंगे।

[फा. सं. ए. 4-1/2018-स्था.-I]

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE
(NATIONAL ARCHIVES OF INDIA)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th, November, 2018

G.S.R. 1134(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Culture, National Archives of India, New Delhi (Deputy Director of Archives) Group 'A' Recruitment Rules, 2000 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director of Archives in the National Archives of India, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Culture, National Archives of India (Deputy Director of Archives) Group 'A' Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall be deemed to come into force on the 8th day of February, 2002.

2. In the schedule to the Department of Culture, National Archives of India, New Delhi (Deputy Director of Archives) Group 'A' Recruitment Rules, 2000, entries against serial number 5 shall be substituted with the following:-

Selection

Explanatory memorandum: Giving retrospective effect to the amendment will not prejudicially affect the interests of any person.

[F. No. A. 4-1/2018-Estt.I]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.